॥श्रीगणेशायनमः श्रीरामञ्चागपालिषते
दोहा वानिविनायकअंबुगुरहरविहररमा
रमेस सुमिरकरहूसबकाजसुनमंगलदे
सबदेस १ सुरगुरसाईसिंधुरवदनससि
सुरसाईसुरगाय सुमिरचलहूमगमुदति
मनहोयहैसुकृतसहाय २ गिरागवरिगुरग
णपहेरमं गलमंगलमूल सुमिरतकरत
नसिधिसबसगुनअनकूल ३ भरतराम
सियरिपुदवनगुरगणेसबुधवार सुमिर

रतसुलनभसकर्म फलबिद्यादिनयविचार ४
सुरगुरगुर सियरामगणराव गिराउर आनि
कछ्कुरियेसुहोयसुभपुलहीसूमंगलषानि
५ सुकृतिसुमरिगुरसारदागनप८
मान करियेकाजसुभसाजफलनिक
कटिनिधानि ६ तुलसीतुलसीरामसियसु
रिलषनहनुमान काजविचारोसोकरोदिन
नवडकल्यान ७ पहेलीदहाई १
नइतिभयनाहिनदुरतिदुकाल प्रमुदतिश्र

जाप्रसन्नसबसर्वेसुषसदासुकाल १ कौसल्या
पदनायसिरसुमरिसुमित्रापाय करियेकाज
मंगलकुसलविधिहरिसंभुसहाय २ विधि
वसिवनम्रगियाफिरतदीनअंधसुनिश्राप
सोसुनिविपतिविषादपडप्रजासोकसंताप
३ सुतहितविनतिकीनन्रपकुलगुरकहीउ
पाय होयहेभलसंतानमुनिप्रमुदतिकोसल
राय ४ पुत्रजगपकरवायरिषिराजाहीदीनप्रा
साद सकलसुमंगलमूलजगनुसुरआसि
रवादः५ रामजनमघरिघरिअवधिमंगल।

गानिसान सगुनसुहावनसुन्नकरन मंग
लमोदनिधान ६ रामन ८
ि दसरथबालकच्यारि तुलसी
गुनजलमंगलकहेतप्रचारि ७ दूसरीद
डी २ नृपभवनभाइनसहितरघुवरबा०
नोद सुमिरतसबकल्यानजगपगपगपर
मानंद १ करनवेधचुडाकरन
पबीत समयसकलकल्यानमयमं ८
लगीत २ भरतसत्रुसूदनलषनस
मरिरघुनाथ करोकाजसुज

हिसुमंगलसाथ ३ रामलषनकौसिकसहि
तसुमरिकरोपयान: लवधिलाभजयजगतज
समंगलसगुनप्रवान :४ मुनिमषपालकृपा
लप्रभूचरनकमलउरआनि तजोसोकसंक
टमिटैसतिसगुनजियजानि :५ हाणिमीचद
रिद्दुरतिग्राद्धिंतिगतिवीचि रामबिमुष
अपग्रापनैगायेनिसाचरनीच ६ सिलाश्रा
पमोचनचरनसुमिरोतुलसीदास तजोसो
कसंकटमिटैपूजैमनकीग्रास ७ तीसरीद
हाड़ी सीयसुयंवरसमयभल सगुनसमयस

वकाज कीर्ति बिजय बिवाह बिधि सफल सुमंग
लसाज १ राजत राज समाज महि राम लषन जि
वड चाप सगुन सुहावन लोचन वड जय परस
राम परिताप २ लोचन मोद मंगल अवधि सिय
रघु वीर विवाह सकल समय दायक समो सु
न से वकाज नुछाह ३ कोसल पालक वाल
उरमी यमंदिर जय माल समय सुहावन सगु
न मल मुद मंगल कल्यान ४ हरषि विवुध व
रषे सुमन मंगल गान निसान जय जय रवि
कुल कमल रवि मंगल मोद निदान ५ सता

नंदपठयेजनकदसरथसहितसमाज आ
येथिरोहितसगुनसुभनयेसीधिसवकाज
६ दसरथपूरणपरमविधिउदितसमोसंज
ग जनकनगरसरकूमदवनतुलसीप्रमुदि
तसवलोग १ चवथीदेहाई ४ मनमली
नभानीमहीपकोककोकनदव्रंद सुकृतस
माजचकोरचितप्रमुदितपरमानंद १ ति
हिअवसरराववानगरअसुगनअसुभअप
र होयहानिनयमरणदुषसूचवारवार २
मधुमाधवदसरथजनकमिलिविराजरितिरा

ज सगुनसुहावनसुतरफलफूलतफलत
काज ३ विनयपरागसुप्रेमरसमुदति
संजोग कुसमितकाजरसालतरसगुन
जसवजोग ४ उदतिभानकुलभानल
के उलुकनरेस गयेगवायगतुरिताधनु
सिहयेमहेस ५ च्या
रषिनगरपुरलोग कौस८
समैसिराहतजोग ६ किंचतविमलवि
विधिसगुसमंगलरूप तुलसीसहितस
सुषसुकतसंधुदोनुनूप ७ पंचमीदहाडी

दायजमयेश्चनेक।विश्चिमुनिमिगाहिदमिपम्म
मुघमंपतिम्मंतायमग॥ गुनम्ममगन्नमान्न १
वरदुलहनिम्मवपरमपगमुदत्तापायमनका।
मच्चारिचार तोदानिरापिदान्नम्ममाजश्चनिग
म २ चारूकवरविना।दिपुरगवनेदमरयग
व नेयमजुमगन्न [illegible] गरामुरमनुपम्माव
३ पथपज्ञमधरश्चा॥ [illegible] गोञ्चमवका
ह गजममाजन [illegible] मिमित्याउ।
श्याह ४ गोमक [illegible] टिपाणिप
रमधन्नुवान [illegible] किमुनिम

वसमाजविलपात ५ अनुहीमोपीमारगा
निदान्त्याग्रामीवाद जयमगलसुचकसरु
नगामगामसंवाद ६ अवधिग्रानंदवधावत
मगलगानतिसान तुलसीतोरणसकल
पुरचवरपताकवितान ७ छंद हाहा ६
माजिसुमंगलग्रारतीरहसिविावसिरणव
स मुदतिमातपरछनचलीउमगतहृदय
हुलास १ कहेहीनिछावलिग्रारतीउमडी
जम ग्राग्रनुराग वरदुलहनिग्रनूपलाषि

मघीमीगहैहीनाग २ मुदतीनगर नरनाविम
वमगुनमुमंगानमून नयधुनिमुरहदमीवुजे
हरपवरपफून ३ आयकोथनपानपुरकु
मनममाजेममति ममयमुनतमुमिरतमु
पदमकनमिधिमुपूदेत ४ ईपमीनवयवं
मगुगममविवाहनयध्याहि मुदतीगवरगी
मकनमानकूनतिपुराहि ५ विधिहरिहन्य
नकूनप्रतिदमरथगजाहाआजि देपिमिग
हेहीम्यंधुमुरमपतिममयममाज ६ ममुन
प्रथमठनचामननिनुनभीप्रतिप्रनिगमा

सवमसतसुरभूमिसुरगोगणगंगारामअस्या
तइदहाइ॥॥ पहलोसर्गसंपूर्णी। दूसरोलिष
ते समयरामजुवराजकरिमालमोदतिकेत
समुतसुहावनसंपदासिधिसुमंगलहेत १
सुरमायावसिकेकइकुसमयकीन्हकुचालकु
टिलनारिमिसिहोयछलअनमलयाजित
कालि २ कुसमयकुसमुनकोटिसमरामसी
यवनवास अनथयकेतनलअवधिजयजनो
सर्वसनास ३ सोचतपुरपुरिजिनसकलवि
कलरागरणवास छलमलीनमनतीयमिसि

बिपतिबिषादनिवास ४ लषनरामसीयबन
बसतसकलत्रमंगलमूल सोचपोचसंताप
बसिकुसमयसंसयसूल ५ प्रथमबाससु
रसानिकटिसिवाकिननिषाद कहबसुनासु
नसगुनफलबिसमयहरिषबिषाद ६ चके
अन्हायप्रयागप्रभूलषनसीयरघुराज तुल
सीजानबसगुनफलहोयहैसाधसमाज १
प्रथमदहाई सीयरामलौनैलषनतापस
निषअनूप तपतीरथजपजागहितसगुन

समंगलरूप १ सीतालषनसमेतिप्रभुज
मनातरिषिन्हाय चलेसकलकटकसमा
नसगुनसमंगलपाय २ अवधिसोकसं
तापवसिविकलसकल[illegible]नरनारि
बामविधातारामबितिभागतमींचुका
रि ३ लषनसीयरघुवसमनिपथिकपाय
उरआनि चलेअगमगमनगतुरामसुनसं
गुनसमंगलषानि ४ ग्रामनगरसवना
रिनरहुदातिलषनरामसीपिरेषि होस॥

प्रीतिपद्विद्यानिविनिमानवमेन वद
नमुनिगणगमहिमितश्रीमु श्रिमु ग्र नप
न्नपायमगुनमिधिग्यामकेदव म ग्रानिम नि
हीयग्रधाय ६ चित्रकूटपपतीरमनवमेभा
नकुलनान तुन्नमीजपतपजेगाहितम
कन्नमुमगन्नजानि ॥ दुमतीदहाहि ॥
हमवमत्रवतमजवकीन्हा वामपयवा
म तापसमाधकमिधिमुनिमवकेमद
गनमपाम ॥ विटपवेनिफुन्नहीप,नही

संमंगलरूप १ सीतालषनसमेतिप्रभूज
मनाग्रतरिग्रन्हाय चलेसकलकंटकसम
नसगुनसमंगलपाय २ अवधिसोकसं
तापवसिविकलसकल [illegible] नरनारि
बामविधाताराम बिनिमागतमीचपुकारि
रि ३ लषनसीयरघुवंसमनिपथिकपाय
तरत्र्यानि चलोत्र्यगममगसुगमसुनस
गुनसमंगलपानि ४ ग्रामनगरसवना
रिनरमुदतिलषनरामसीपदेषि होय।

[illegible]
[illegible]
हृदय [illegible]
तुलसी [illegible]
सीचि ७ [illegible]
रत्रिय [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

जानि २ सेवकसषासुबंधुहितसगुनबि
चारिबसेषि भरतनामगुणगणबिमल
सुमरिसतिगुणदेषि ३ साहिबसीताराम
मसेसेवतसुलभसुजान रामसुमरिसे
इयेप्रभूसगुनकहतकल्यान ४ सुकृत
सीलसोभाअवधीसीयसुमंगलषानि
सुमरिसगुनसीयधर्महितकहतसगुन
जीयजानि ५ ललितलषनमूर्तिहृदय
आनिधरेधनुवान करोकाजसुनसगु

दीयेअत्रेयजानकीहीवसनविभूषणभू
रि रामकृपासंतोषसुषहोयसकलदुषदू
रि ४ काककुचालविराधवधदेहतजी
सरभंग हालिमर्णेसुचकसगुनअनअ
र्थेअसुभप्रसंग ५ रामलषणमुनिगण
हीमिलहीमंजुलमंगलमूल संतसमा
जतवहोयजववरामभक्तअनकूल ६ मि
लेकुंभसंभवमुनिहीलषनसीयरघुरा
ज तुलसीसाजसमाजसुषसिधिदर्से

सवकाज ७ छंदी दहांडी ६ सुनिमुनि
आयुसप्रभूकीयोपंचवटीवरवास महं
सुपावनपरसिपदआसवत्राति सुपास
१ सरितसारोवरसजलसवजलजा
बिपुलवहूरंग समयसुहावनसगुन
सुनराजा प्रजाप्रसंग २ विटपवेलिफू
लहीफलहीसीतलसुषदसमीर मुदि
ति विहंगमत्रगमधुपगणवनपालकदे
उवीर ३ मोदाकरिगोदावरीविपनसु

षदसवकाल निज्ञैमुनिज्ञपतपकरैपा
लैहीरामकृपाल ४ जेटगीधरघुराजस
नदोउदिसिहृदयहुल्लास सेवकपापू
सुसाहीवहीसाहिवपायसुदास ५ पढै
पढावहीमुनितनयआगमनिगमपौरा
म / विद्यालाभसवज्ञानवज्ञानुवसमय
समान ६ निजकरसीचतज्ञानकीतु
लसीपायरसाल सुभदुतियगुणचास
मलिवृषाक्रषिसुकाल ७ सातईदहा

डी ७ तृतीयसर्गसंपूर्णः २ दंडकवनपावन
करनचरनकमलनरेखानि प्रभाव नसर
जामहिजडतिरैहोयरंकतेराव १ कपटरूप
मनमलिनतागाडीसुपनषाप्रभूपासि कुस
गुनकठिनकुनारिकृतकलहकलुषफेपहा
स २ नाककानविनिविकलनइ विकट
करालकरूप कुसगुनपावनदेवमगपदपद
कंटकरूप ३ परदूषणदुषितचले[illegible]साजी
सेनिसवसाजं अनर्थअसुगनअघअसु

अत्रषिलहे तप्रकाश ४ उरकुउठयकरा
टकरिषिकरेहीखानकुजाति नीचनिसाच
रमीचवसिमानिमोहमदमाति ५ रामरोष
पावकप्रवलनिश्वसेलनसमानि लरतप
रतजरिजरिमरतनयेनसमजगजानि ६ सी
ताल्नषनसमेतिप्रभूसोहततुलसीदास ह
रषतसुरवरषतसुमनसगुनसमंग०
७ प्रथमीदहाई १ सुनटसहस्रचौदास
तनयेकालवसिजानिः सुपनेषालेकाच०

असुरअमंगलषानि १ बसनसकल
श्रोनितिसमिलविकटबदनगतगात रो
वतरावणकीसमातातमातहाभ्रात २ का
लकीमूर्त्तिकालिकाकिलकारतविकराल
विभिपहिचानेलंकपतिसभासमयतिहि
काल ३ सुपनेषासवभ्रातिगतअसुरअ
मंगलमूल समयसादसतीवरसराजाप्र
जाप्रतिकूल ४ वरवसगानतरावणही
असुनगनमयेअपार नीचगिनतनहीमं

चवसिमिलिमारीचविचार ५ झीतरावण
वतरामकरमीचज्ञाणिमारीच कनककप
टम्रगत्नेघतवकीननिसाचरनीच ६ पंच
वटीवटविटपतरसोहततुलसीदास सीता
लषनसमेतिप्रभूसकलसुमंगलदेत ७ दू
सरीदहाइ २ मायाम्रगपहिचानिप्रभूचले
सीयापुचिज्ञानि वंचकचोरप्रपंचलषिसगु
नकहतहितहाणि १ सीयहरणश्रवसर
सुगनभयसंसयसंताप नारिकाज्ञहितनि

पटगतप्रगटपगनवपाप २ गीधराजगव
णसमरधायनवीरविराजसूरसुजसमय
महितमगणसुमाहिवकाज [illegible] गमनपनव
नवनविकनफिरतसीथासुमिनत सुचत
सगुनविपादन [illegible] श्रीरामरिष्ठ्य्रवेत ४
रघुवरविहग विव [illegible] विनाकीदे
व वीर सीयसुधिक [illegible] मकहितजी
देहमतिधीर [illegible] ॥३४॥ [illegible] नी नति
महितीतामन [illegible] समेत

ग्रनूक्रपास्यंधुरघुराज ६ तुलसीस
सनेहनितिजेसुमिरै सीतारामसगुन
मंगलसुन्नदसाग्रादिग्रंतिपरिनाम ७
तीसरीदहाडी ३ सकलकाजसवसमय
न्नलिसगुनसमंगलजानि कीर्ति
विभूतिन्नलिहियहनूमानहीग्राणि १
सुमरिसत्रुसूदनचरणचलोकरो
ज सत्रुपराजयनिजिजयतिसगुनसमं
लसाज २ भरतनामसुमिरत

गलमूल देषतसुमिरतसगुनसुमकलपल
ताकलिकूल ७ चौथीदहाई ४ लषिवल
अंधकबंधुवसिपरेउसबंधुसमेति सगुन
सोचसंकटकहतभूतप्रेतदुषदेत १ पापनी
वसुभीवनलि मिटेमहामुनिश्राप विहिं
गमरणसीपसोचसुनिसगुनसमपसंत
प २ कहीसिवरीसवसियसुधिप्रभूसिरा
हि फलपात सोचसमयसंतोषसुषसगुन
समंगलवात ३ पवनसुवनसनमेटमइ

नृमिमृतासुधिपाय सोचविमो चगमगुन
सुनमित्योमुसेवगध्राय ६ गमनपनह
नृमानसनदोउ दिस्पिपमैनुश्राह मिरने
सुसाहिवमेवक्ततीप्रनृहीमृमेवकनाड
प कीन्हसपामुर्गविप्रनृ नीनीवाहरघुवी
र मुनमनेह हितमगुनतनन मिटेमोच
नमनीर ६ बानिवतिनदतनमाजितनम
पाकीनकपिराजं तुनन पकुपानको
विरदगगीवनवाजं ११

५

बंधुविरोधनकुसलकुलकुसगुनकोटिकु
चाल रावणरविकोराहसोभयोकालवसि
वालि १ कीन्हवासवरषानिरषिगिरवरस
नुजराम काजविलंवतसगुनफलहोयहै
मलपरिनाम २ सीयसुधिकपिमालसव
विदाकीयेकपिनाथ जतनकरोआलसत
जोनायरामपदमाथ ३ हनूमानहियेह
रषवडरामजुहारेजाय मंगलमूर्तिमारुत
सुतआदरलीयेवुलाप ४ डाटेवानरमाल

सवत्रवधिवीति किहिकाज जौनित्रायेसु
कालवसिकोपिकहीकपिराज ५ ज्ञानिसि
रोमणिज्ञानिजियकपिवलबुधिनिदानि
दीनीमुद्रिकामुदतित्रनूपायमुदतिहनू
मान ६ तुलसीकरतलसिधिसवसगुन
समंगलसाज करित्रनामरामहीचलेसा
हससिधिसुकाज ७ छठीदहाई ६ ना
यहाथमाथेधरोत्रनूमुद्रिकामुपमेलिच
लेसुमरिसारंगधरत्रानंदसिधिसकेलि

सगिनीन्ननन्नकुमा दगवाछिजासवंतजुव
राज चलनगमपदनायसिरसगुनसमंगल।
साज २ पठिविदर्तमनितपसीहीत्रचयप
गीफलनपाय सगुनसिधिसाधकदरसत्र
निमतिहायत्रधाय ३ वनचरविकलविह
गलपिदंपिजुदधित्रवगाह त्रसमंजसव
डसगुनगतविधिवसिहोयनिवाह ४ सव
सनीतसंपातलपिहारहीयहारास कहै।
हीपरसपरगीधगतिपरिहरिजीवनत्रास

नवतनमामद्दिमाम [illegible]

य धरोधीरमा [illegible]

य ६ तुलसीमा [illegible]

पात श्रुन्नीमव [illegible]

मत्नपाति १ श्री [illegible] १ [illegible]

नमस्तुनमयु [illegible]

पुत्रनानन [illegible]

दस्परणकुनमयुः [illegible]

यं पायक्ष्यण [illegible]

थ २ सर्वसगर्भसोहतसदनसकलसुमं
गलपानि तेजप्रतापप्रसनतारूपनजय
वपानि ३ दंपिसुहावनसुपनसुनसगुन
ससंगलपाय कहैहीहरषिमनभूपसनह
षनाहिदयसमाय ४ सुपनसगुनकहिरा
उमुनिकुलगुरआसीर्वाद पूजेसबमनका
मनासंकरगौरिप्रसाद ५ मासपाषतिथि
जोगसुननिषत्रलगनग्रहवार मरतलपन
रिपुदवनसुतरामलीनअवतार ६ सगटस

यित्नपमुत्र.तप [illegible]
त्नमम्रगान्नमृ [illegible]
१ प्रथमदहदी [illegible]
दतिनगारनरन्त दि [illegible]
वुधविधिनिपुगा [illegible]
मानननमृदतिन [illegible]
तमृरतगतिगविप [illegible]
त्रका त्नवकल्याणन्न [illegible]
हायविवमरणाचाम [illegible]

ति ३ अनुदिनअवधिवधावनेनि
गलमोद मुदतिमातपीतूलोगलषिरघुवर
बालविनोद ४ कनवेधचुडाकरनलौकि
ककवैदिककाज गुरआयसुनूपतिकरतम
गलसाजसमाज ५ राजअजिरराजतरुचि
रकौसलपालकृपाल जानुपाणिचरचरि
तवर सगुनसमंगलमाल ६ न्हेमातपि
तुआगवासिसुतजगिजलधिलनाम पुत्र
लानगरसगुनसुनतुलसीसुमिरोराम ७

दूसरीदहाइ २ वालविभूषणवसनवरधू
रिधूसरतसवअंग वालकेलिरधुवरकरत
वालवंधुसवसंग १ रामभरतलछिमनल
लितसत्रुसमनसुसनाम सुमिरतदसरथ
सुवनसवपूजैहीसवमनकाम २ नामल
लितलीलालिलित ललतिरूपरघुनाथ ल
लतिवसनभूषणललतिललतिअनूजसी
सुसाथ ३ सुदिनसाधिमंगलकीयेलीयेन
पभ्रतवंधुअवधिवधावविलोकिसुरवगपत

सुमनसुगंध ४ नृपतिनृसुरन्नाट
कपुरनरनारि दीयेदानसनमानिसव
कुलअनूहारि ५ सषीसवासनिविप्रति।
यसनमानीसवसाय ड्डीसमनायअसी
सुभदैहिसनेहसुभाय ६ रामकाजक
ण सुभसगुनसमंगलमूल चिरंजीवतु।
लसीदासवकहिसुरवरषेफूल ७ ती
दहाई ३ रामजनमसुभकाजसवकहत
देवरिपिआय सुनिसुनिमनहनूमा

प्रमत्रमगि [illegible] ... तस्यामतनगमस
मिर्समगु [illegible] नि ... मत्नामृपदायक
सुत्नन्नसु [illegible] ... त्नत्निता।
त्नात्नत्नो [illegible] ... निहारि
सुतत्नत्नाम ... त्नकि
फत्नच्यापि ... समधु
रमनोहरंवाप ... त्नुयुह ...
यद्देमगुनवंशा ... धतम ...
कपुरसीपम् ... नि नपतीपुत्नपा

योधिनिधितहरमाप्रगटनईजानि पना
मसत्रूसूदनसुजगसुपमासीलनिकेत से
वतसुमिरतसुलनसवसकलसुमंगल
देत ६ वालककौसलपालकेसेवकपा
लक्रपाल तुलसीमनमानसवसतमग
लमंजुमराल ७ चौथीदहाई ४ जनक
नंदनीजनकपुरतवतेप्रगटीआय तव
तेसवसुषसंपदाअधिकअधिकअधि
काय १ सीयस्वयंवरजनकपुरसुनिसु

निसकनेरस श्राय [illegible]
षनवसनसुदेस [illegible]
श्रवधिश्रायसुनिग [illegible]
गलमूलजगश्रा [illegible]
रसोलहनाति [illegible]
विनयवडाईदेकिमु [illegible]
दीन्ह ४ मुनिमागद [illegible]
नदोत्तनाय पाय [illegible] मलगारकि
लमुदतिचलेनिवाई

सोरवरधेरतुणधनृवाग सोहतकैाम्नि॥
कम्हितमगमुदमेगन्नकल्याणे मयत्न्म
रितम्परवागवनम्लगवीहंगवहृरग तुन
सीदेपत जातम्रनृमुदत्तिगाघ्रिम्रुतमंग
.१ पंचमीदिहाई।५ लेतविलोचनलनाहृम
मवडनागीमगलोगगमक्रपदरमणमु
गमञ्जगमजापजगिजोग १ जलधिघ्न
हम्लडुमगञ्चवनिमुघदपवनञ्जनकृन
हरघतविवुधविनोकित्रनृवरघतमुरत्न

फूल २ दलिमलीनपलराषिमपमुनिसि
षिआसिषदीन विद्या ▭ विस्वामित्रसब
सुथलसमर्पणकीन ३ अभयकीयेमुनि
राषिमषधरेवाणधनुनाथ धनुमषकौति
कजनकपुरचलेगाधिसुतसाथ ४ गौत
मतिमतारनचर्नेकमलथानिहरदेपि
सकलसुमंगलसिधिसबकरतलसगु
नवसेष ५ जनकपायप्रियपाहुनेपूजे
पूजनजोग वालककौसलपालधंदे

षिमगनपुरनोग ६ सनमानेश्रानेसदन
पूजेश्रतिश्रनुराग ह्लनसीमंगलनसगुन।
सुमनूरिमनाडीनाग ७ छोदहाडी ६
कोसिकदेषनधनुषमषचलनेसंगदोऊम
य कवरनिरषिपुरनारिनरमुदतिजनम
फलपाय १ भूपसमासिवचापदलिराज
तराजकिसोर सिधिसुमंगलसगुनसुम
जयजयजयसबवोर २ जयमयमंजुल
मालउरमंगलमूर्तिदेषि गाननिसानस्र

हिमेदसंराजकुमार ३ सातमीदहाडी ९
चोथोसर्गसंपुर्ण ४ रामनामकनिकल्प
तरामभक्तिसुरधेनिसगुनसमंगलमूल
जगगुरपदपंकजरेनि १ जलधिपारमाण
सत्रगमरावणपालततलंक सोचविकल
सवजालकपिदोउदिसिसंकटसंक २
जामवंतहनूमानवलकहीसवारिझचा
रि साहसकरिोमानियेमानिहियेनही
हारि ३ रामकाजलगिजनमजगसुनि

हरषेहनूमान होयपुत्रफलसगुनसुन्दर
मनकेबलवान ४ कहतअच्छाहवदायक
पिसाथीसकलप्रबोधी आगतरामप्रसा
दमोहिगोपदसरसपयोधि ५ रापितोषि
सबसाधिसुन्नसगुनसमंगलपाय कृदि
नवतचढिआनिअरसियसहितदोअना
य ६ हरिषीसुमनवरपिसुमनसगुनसुमं
गलहोत तुलसीकपिलाधेठजलधिप्र
भुप्रतापकपिपोच ७ पहलीदहाइ॥१॥

हमातमायामलिनमारीमारुतपुत
सगुनमारगमिलनहिछलमलीनषल
१ पूज्ञापायमयनाकपहिसुरसाकपि
८ मारगश्रमगमसहायसुमहोयहैरामश्र
८ २ लंकालोलपलंकनीकालीकालक
राल कालकरालहीदीनवली ८
पिकाल ३ मसकरूपदसकंधपुरनिसिक
पिघरघरिदेषि सिय ८ ७
हरषविषादवसेष ४ फरकतमंगल

सीयवामवि[illegible]नवाहु त्रिजटक[illegible]तमुनि
सगुनफलनपियम[illegible]मवदलनाह ५ मगुनमम
कित्रिजटाव[illegible]त[illegible]नसीय अवलीक आजि
मिलैहीरामम[illegible]वमा[illegible] [illegible]हो[illegible]नलषनहन
मात ६ तुलसी[illegible] [illegible] [illegible]वर्गावात
जवातजगाय [illegible] [illegible]ण[illegible]धीवपुरगम
लषनदोत[illegible] [illegible] मनुप
जानकीजानिप [illegible]नयकेत शीति
मुद्रिकालीन[illegible] [illegible]तियमेति ०

पायनाथकरमुंडिकासियहियहरषविषाद
प्राणनाथप्रियसेवकहीदीनसुआसिर्वाद
नाथसपथपणरोपिकैकहतचने
थनहीविलंवजगदंवअव॰
नाय ३ समाचारकहिसुनीतप्रभूसानुज
सहितसहाय आयेअवरघुवंसमणिसो
चपरहरियेमाय ४ गयेसोचसंकट
नयेसुदनजियजानि कौतिगसागरसेत
करिआयेकृपानिधान ५ सकुलसदल

जमगजपु॰
सूरुतकाल
सिपपायर
नसीगव
तीसरीहह
मतिसमीर
मुदमगलदा
हमुभिरकरो
नासुषसमुभ

रदे॰दमकयकालन
नन्त्रिध ६ श्री।
नलमिरनाय तु
पावनाय १
गुलि
वमपमिल
माहसीय
सजुसम
बमपपद
न कुसल
पकतु
वगजे २

ञाकीश्रवविसीलसनेहुनिधान धर्मज्ञ
आयपसमयसगुनकेहेतकल्पान ३
कृपालकृपालचितरविकुलकैरवचंद सु
मरिकरोसवकाजसुजपगापगपरमानंद ४
सियपदसुमरिसुतीयहितसगुनसमंगल
ज्ञान स्वामिसुहगनिजागवडपु
ल्पान ५ लछिमनपदपंकजसुम
न समंगलपाय जयविभूतिकिर्तिकुसल
अमिमतिलाजश्रधाय ६ तुलसीकान

कमलवनसकलनसुमंगलवाय गामलंकृ
हितसगुनसुनमुमरितनुलमीदाय १ जं
थीदहाड़ी ४ रूपनिपातकपाट फलनछि
कनछिनिपात कालनरूपविकलालकाय
मनयनिमाचवज्ञाति ५ वनतज्ञातिजाट
नगरकुदिकुदिकपिनाथ हाहाकारपुका
रमवश्रातिमारतमाथ २ पूछवतायत
वोधिमियत्रापगंपत्रतपामि पेमकुस
लनजयजानकीजयजयाजयरघुराज ३

सुनिप्रमुदितरघुवंसमनिसानुजसेनस
मेति चलेसगुनमंगलसुगनविजयसिधि
कहिदेत ४ रामपयाननिसाननभवाज
हीगाजहिवीर सगुनसमंगलसमरजय
किर्तिकुसलसरीर ५ क्रपास्पंधुअनूस्पंधु
सनमागेपंथनदेत विनयनमानतजौ
वजडडाटेनवहीअचेत ६ लाभलोभले
वाकहतछेमचौरिकहिछेम चलेवभीष
नसगुनसुनितुलसीपुलिकतप्रेम ७

पंचमीदहाइी ५ पाहिपाहि असरणसर
णिप्रणतपालरघुराज दीपोतिलकलंके
सकहिरामगरीवनिवाज १ लंकाअसुन
चरचाचलहीहाटिवाटघरघाट रावणस
हितसमाजअवजैहैवारहवाट २ उल
कपातदिगदाहदिनचिकरैहिस्वानसी
पारउदतिकेतरविहेतमहिकापतिवा
रवार ३ रामकृपाकरिलालेकपिकोति
गसागरसेत चलेपारवरषतविवुधसु

मनसेमंगलहेत ४ नीचनिसा
वसिचलोसेनिचतुरंग प्र
कप्रवलनडिडिपरतपतंग ५ साजि
जिवाहनचलैहीज्ञातिधानवलवान
सुगनअसुमगिनैनहीआपकाल
रान ६ लरतमालकपि
रिनिसाचरघोर सिरपरिसमर्थरा
साहिवतुलसीतोर ७ ॥ठी ६
घनादअतिकायनटपरेमहो

वएनाइीजगायतवकहिप्रसंगत्रचेत॥१॥ उभि
विसालविकरालतवकुंतकर्नउमूहान ल्पषि
सुदेसकपित्रालदलउनौदुकालसमिहान
२ रामस्यामवारिदसघनवसनसुदामनिमा
ल वरषतसुरहरषतविवुधदलदुकालद्या
ल ३ रामरावणहीपरसपरहोतरारिरएघो
र लरतप्रचारिप्रचारिभटसमरसोरचहूवो
र ४ वीसवाहदससीसदलिषंडषंडतनकी
न सुत्रटसिरोमणिलंकपतिपाछेपावनकी

५ विवुधवजावैहीदुंदभीहरषतवरपत
रामविराजतजीतिरणसुरसेवगग्रन
६ लंकाथापिवभीषनहीविवुधवसा
मंगलकुसलसुजप
चास ७ सातडीदहाडी पंचमसग
५ रघुवरआयुसअमरपतिअमीसी
सकलजिवायेसगुनसुभसु
आदरआनीजानकीहनु
नप्रभूपासि प्रीतिपरसपरसगुनसुभस

कलसुमंगलवास २ सीतासपथस्रसंगसु
मसीतलनयेकसान नेमप्रेमहितव्रतध
र्मसगुनसुहावनजान ३ सनमानेसवना
लसवसादरसाजिविमान सीयसहितसा
नुजसदलचलेनानकुलनान ४ हरिषता
सुरवरषतसुरवरषतसुमनसगुनसमंगल
गान ग्रवधिनाथगवनेग्रवधिषेमकुसल
कल्यान ५ संधुसरोवरसरितगिरकानन
भूमिविभाग रामदिषावतजानकीउमगि

उमगिअनूराग १ तुलसीमंगलसगुनसुभ
कहतजोरिजुगहाथ हंसवंसअवतंसजयज
यजयज्ञानकीनाथ ७ पहेलीदहाई १ अव
धिअनिंदतलोगसबव्योमविलोकीविमान
मनहू [illegible] रतिलषि
भान १ मिलेगुरजनपरिजनहीमेटेभरतसु
प्रीति लषनरामसीयसकलपुरआयेरिपु
रणजीति २ उदवअवधिअनाथसबअ
वुदसादुषदेषि रामलषनसीतासकलवि

कलनिषादवसेष ३ मिलेमातुहितमितगु
रु सनमानेसवलोग सगुनसमयविसम
यहरषप्रियसंजोगविजोग ४ अमरअनंद
तमुदितमनसुवनसकलदिसिच्यारि घ
रिघरिअवधिवधावनेमुदितिनगरनरना
रि ५ सुदिनसोधिगुरवेदविधिकीयोराज
अभिषेक सगुनसमंगलसिधिसवदायक
हाहायेक ६ भातिभातिउपहारलेमिलत
जहारनृप पहरायेसनमानिसवतुलसी

सगुन अनूप ७ दूसरी दिहाड़ी २ जयधुनि।
गान निसान नव षत सुरतर फूल नये र
म राजा अवधि सगुन समंगल मूल १ भाल
व मीपणकी सपति पूजे सहित समाज नल
जाति सनमानि सब विदा कीये रघुराज २
राम राज संतोष सुष घर वन सकल सुपास
सुरसुरतर सुरधेनि महि अनिमति भोग
विलास ३ राम राज सब काज करि नीक
ये कही आक सफल सगुन मंगल सकल

होयनवारनवाक ४ कुंभकनेरावणसरिस
मेघनादसेवीर दयेसमूलविसालतरका
लनदीकेतीर ५ सकलसदलरावणसर
सकविलतकालकराल सोचपोचअसुग
नअसुभजायजीवजंजाल ६ अविचलरा
जविभीषणहीदीन्हराजरघुराज अजहूवि
राजतलंकपतितुलसीसहितसमाज ७ नी
सरीदहाडी ३ मंजुलमंगलमूलमयमुर
तीमारुतपूत सकलसिधिकरकमलतरस

सषासुबंधुहितनायलषनपदमाथ कीजि
यप्रीतिप्रतीतिसुभसगुनसमंगलसाथ ४
रामनामरतिरामगतिरामनामविस्वास
सुमरतसुभमंगलकुसलतुलसीतुलसि
दास ७ चतुर्थेदोहा ४ विप्रयेकबालक
म्रतकराष्योरामदुवार दंपतिविलपतिसो
कअतिआर्तिकरतपुकार १ रामसोचसं
कोचबसिसबीवविकलसंताप बालकमी
चअकालनहीरामराजकिहिपाप २ विबु

थविमल्लवानीगगनहेरिप्रज्ञाउपचार राम
राजपरिनामफ्लकीजियेवेगिविचार ३ कौ
सलपालकृपालचितवालकदीनज्ञिवा
य सगुनकुसलकल्यानसुमरोगीउठे श्र
न्हाय ४ वालकजीयेविलोकिसकलकहे
हीउठाज्ञानौसोय सोचविमोचणसगुन
सुमरामकृपाजवहोय ५ सिलासुतियम
डीगिरतिरेम्रतगजीयेजगजान राम श्र
नुग्रहसगुनसुमसकलकाजकल्यान ६

प्रभु बिलगहोतपयपानि ३ रामकुंवरचा
करैंहीसवसीतान्नायकलंक सदाश्रभ
गीलोगसव कहैतसकोचनसंक ४ स
तीसिरोमणिसीयतजिराषिलोकरुचि
जानि सहेदुसहदुषसगुनगतत्रियवि
योगपरिनाम ५ वरणधर्मआश्रमधर्म
निरतनरनारि रामराजमंगल
सफलजगिजपजोग ६ वाजमे १२
धिनतकीयेदीयेदानवहुभांति

राजारामजगसगुनसमंगलनषानि ७
छीदहाड़ी ६ असमजसवडसगुनग
तसीताराम विजोग गवंनवदेसविषाद
कनिहाणिपगलवरोग १ तिमणि सिय
अपराधविनिअनूपरिहरिपिछताति
सोचसमाजनराजसुषमनमलीनअ
सगात २ पुत्रलाललवकुसजनमसगु
नसुहावनहोय समाचारमंगलकुस
लकुसलसुनावेकोय ३ रामसमालव

कुसज्जनमकीयेरामगुनगान राजसमा
गमसगुनसुभसुजसल्लाजसनमान
४ वाल्लमीकलवकुससहितआनिसी
यमुनिराम हिरहैहरिषजानतप्रथम
सगुनसोकपरिनाम ५ अनरथअन
रथअतिअसुभसीताअवनिप्रवेस सा
मोसोकसंतापजयकुलकलंककलेस
६ सुभगसगुनउनचासरसरामचरित
मयचारु रामभक्तिहितसफलसवतुल

सीविमलविचार ७ सातडीदहाडी॥ ७
ोसर्गसंपूर्ण ६ रामभरतसानुजलष
नसुमिरतसुभसवकाज सहितीप्रीति
प्रतीतिहितसगुनसफलरघुराज. १ सु
षमुदमंगलकुमदविधुसगुनसरोरुह
भान करोकोजसुभसिधिसवआनिहा
येहनुमान २ राजकाजभणिहेमहयरा
मरूपरविवार कहैतनीकजयलाभसु
भसगुनसमयअनुसार ३ रसगोरसप

४

५

सगुनसम
सुनसुमरिसीयरघुराज ६ गुरत्र
सवकाज ७
१ सुकृतसुमंगलकाजसव

जगिविवाहउछाह व्रतसुमनुरसीसवकाज ॥२

कहतसगुनसुमदेषि जंत्रमंत्रमणिऔव षट्सिाहससिधिवसेष १ रामकृपानिधि काजसुमसनिवासरविश्राम लोहमह वीगजविनजमलिसुषसुपासग्रहग्राम २ राहकेतजलटेचलहीअसुनअमंग लमूल मुंडमुंडपाषंडप्रियअसुनश्रम रप्रतिकूल ३ समोराहरविगहगतिरा जाप्रजाकुलेस सगुनसोकसंकटवि कटकलहेकलुषदुषदेस ४ राहसोम

संगमविषमअसुगनउदधिअवगाह
ईतिभीतिषलदलअवलसिधहीभूसु
रसाध ५ सातपाचग्रहयेकथलचल
हीवामगतिवाम राजविराजीसभैगत
सुनहितसुमरोराम ६ षेतीविनजवन
विद्यासेवासिलपिसुकाज तुलसीसुर
तरसरससवफलैहीरामकैराज ७ दूस
रीदहाई २ साधसाधसुरतरसरससव
फलसुहावनीवात तुलसीसीतापतिभ

क्तिसगुनसमंगल्नसान १ सिधसमागम
संपतिसदनसरीरसुषसुवास सीतानाथ
प्रसादसुन्नसगुनसमंगलवास २ कौसल्या
कल्याणमयमूर्त्तिकरतत्रनाम सगुनसमं
गलकाजसुभक्रपाकरहीसीयराम ३ सुम
रिसुमित्रानामजगजेतीपल्हेहसुनेम सु
वनल्पनरिपिदवनसेपावहीपतिपदप्रे
म ४ दसरथनामसुकल्पतरफलेसक
लकल्याण धरणिधामधनसुषसुतगुणबृ

पनिधान ५ कहतकपटकलिकेकडीसु
मिरतकाजनसाय हालिमीचदारिद्दूरि
तअसगुनअसुनअधाय ६
सिजानकीलषनदाहिनीवोर ध्यान
कलनमयतुलसीसूरततोर ७ ती
रहाडी ३ मधिमदिनमधिमदसाम
सकलसमाज नामुमाथरघुनाथ
जानवमधिमकाज १
धजवअनूहितपरअनुराग रामवि

विधि वामगति सगुन अधाय अनाग २ रूप
एदेय पायन परै विनि साधे सिधि होय सी
तापति सनमुष सम भरी जो कीजे सुनहोय ३
पहले नलपरिनाम ज्ञ गवी चिवी चिनलपो
च सगुनकहत असराम गति कहत समेति
सकोच ४ रमाराम पति गोरिहर सीताराम
सनेह पतिहित संपति सकल सुषसगुन सं
गलग्रेह ५ प्रीति प्रतीति नराम पदवडी आ
सवड लोन नही सुपनै संतोषसुष ज्ञहातहा
मनकोछोन ६ पयअन्हाय फल षाय जपि

रामनामषटमास सगुनसमंगलसिधि
वकरतलतुलसीदास ७ चौथीदहाडी ४
वडकलेसकाजिअवडवडीआ ० ०
उदासीनसीतारवनसमयसरसनि
प दसदिसिदुषदारिदडुसैहडुसहदसा
नदेषि फेरेलोचनरामतवसवसुषसा
सरोष २ षेतीविनजननीषन्नलिअफल
उपायकदव कुसमयजानववामपिधि
मनामअवलंव ३ पुरषार्थस्वारथसक
लपरमारथपरिनाम सुलनसिधि

गुनसुनसुमरतसीताराम ४ मागन्नागथु
लेभागथतजिश्रालसग्रसेउपाय श्रसुमश्रमं
गलसगुनसुनिसराणिरामकीश्राय ५ गइवि
रपाव्याकुलनके षासालिसुनाजकुसमोकुस
गुनकलेहकलिश्वजाकलेसकुनाज ६ तुल
सीतुलसीरामसीयसूमरोलेषंनेसमेति दिन
दिन। उदौश्रनंदश्रवसगुनसमंगलदेत ७
पंचमीदहाड़ी ५ उदैनश्रवधिनरेसावि निदेसं
उपीनरनारि राजनगकुसमाजवडग्रहचा

लविचारि १ अवधिप्रवेसअनंदवडसगुन
समंगलमाल रामतिलकअवसरकहतसु
षसंतोषसुकाल २ रामराजवाधकविवुध
कहेतसगुनसातिआय देषिदेववतदोषदु
षकीजियेउचितउपाय ३ मंदमंथिरामो
हवसिकुटिलकेकईकीन व्याधिविपतिस
वदेवकृतअसुभसगुनकहदीन ४ रामबि
रहदसरथदुषितकहतकेकईकाकु कुस
मयजायउपायसवकेवलकर्मबिपाक ५

नूमान्वीरोसगुनंमंगलालयं॥१॥इतिश्री
रामग्रंथसंपूर्णं॥मीतीफागुणबुदि ५सं
मत् १८५४ लीषतंग्यान्याब्राह्मगुजरगोड
होसामधेनमोराबासमलीधि॥बाचजीन
रामरामबंचणा॥श्री श्री श्री श्री श्री श्री

यानिसद्यः भवंतिदैत्यास्त्रनिवारणार्थं शार्ङ्गंसदाहंशरणं
प्रपद्ये ५ इदंहरेःपंचमहायुधानांस्तवंपठेद्योनुदिनं
प्रभाते समस्तदुःखानिभयानिसद्यःपापानिनश्यं
तिसुखानिसंति ६ वनेरणेशत्रुजलाग्निमध्येयदृ
च्छयापत्सुमहाभयेषु इदंपठेत्स्तोत्रमनाकुलात्मा
सुखीभवेत्तत्कृतसर्वरक्षः ७ इतिश्रीपंचायुधस्तोत्रंसं
पूर्णं